



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 501]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 1982/कार्तिक 12, 1904

No. 501]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 1982/KARTIKA 12, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1982

का० आ० 778 (अ)/18 कक/उ वि वि अ/82:—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 752 (अ)/18कक/उ वि वि अ/77 तारीख 4 नवम्बर, 1977 (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, मेसर्स सोम सुन्धरम स्पिनिंग मिल्स, मुथनेन्दल, रामनाथ पुरम जिला, तमिलनाडु नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन 4 नवंबर, 1977 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था, और तमिलनाडु बस्त्र निगम को, उक्त संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था :

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है कि उक्त आदेश, 3 मई 1983 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बना रहना चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश, 3 मई, 1983 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा।

[का० सं० 3/14/77 सी० यू० एस०]
ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 3rd November, 1982

S.O. 778(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 752(E)/18AA/IDRA/77, dated the 4th November, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Somasundaram Super Spinning Mills, Muthanendal, Ramanathapuram District, Tamil Nadu, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development

and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years from the 4th November, 1977, and the Tamil Nadu Textile Corporation was authorised to take over the management of the whole of the said industrial undertaking;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 3rd May, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 3rd May, 1983.

[F. No. 3(14)/77-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.